



## **DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION**

**Reference : PGD 37 (25501)**

**Date : 06 May 2024**

**TECHNICAL COMMITTEE : General Engineering and Fasteners Standards, PGD 37**

**To,**

**All concerned**

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the General Engineering and Fasteners Standards Sectional Committee, PGD 37. Please [click here](#) to view the document.

**Document Number : PGD 37 (25501) WC**

**Title of the document : Countersunk Flat Head Screws Penetration depth of Cross Recesses**

**Document Type : New Indian Standard**

*This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:*

*1) This Standard specifies the penetration depth of cross recesses of countersunk flat head screws for the two series 1 and 2 (deep and shallow, respectively).*

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

**Last date for sharing the comments is : 05 June 2024**

The comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at [pgd@bis.gov.in](mailto:pgd@bis.gov.in) to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

**Yours faithfully,**  
**(RAJEEV RANJAN SINGH)**  
**Head (Production and General Engineering Department)**  
**Email: [pgd@bis.gov.in](mailto:pgd@bis.gov.in)**



## व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : PGD 37 (25501)

दिनांक : 06-05-2024

**तकनीकी समिति : General Engineering and Fasteners Standards Sectional Committee, PGD 37**

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : PGD 37 (25501) WC

शीर्षक :

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

**सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 05 June 2024**

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट [www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in) पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,  
विभाग प्रमुख का नाम : RAJEEV RANJAN SINGH  
(Production and General Engineering Department)  
ई-मेल : [pgd@bis.gov.in](mailto:pgd@bis.gov.in)